



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1946 (श10)

(सं0 पटना 837)

पटना, बुधवार, 21 अगस्त 2024

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 अगस्त 2024

सं० 1/स्था० (1) 01/2022 (खंड)—3840—बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक—1670, दिनांक—20.07.2022 के द्वारा विज्ञापन सं०—02/2022 के तहत बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 288 अभ्यर्थियों में से विभागीय सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित 283 अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना संख्या—3246—सह—पठित ज्ञापांक—3247, दिनांक—27.09.2022 द्वारा औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए पदस्थापित किया गया था। उक्त अधिसूचना के क्रम—239 में अंकित डॉ० धनंजय कुमार को औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया गया था एवं विभागीय आदेश संख्या—3789, दिनांक—06.10.2023 द्वारा पदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु जनवरी, 2024 तक का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं देने के कारण विभागीय पत्रांक—896, दिनांक—13.03.2024 द्वारा डॉ० कुमार का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए एवं डॉ० कुमार द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान पे मैट्रिक्स वेतन स्तर—9 (रु० 53100—167800/—) में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से बिहार पशु चिकित्सा सेवा (मूल कोटि) के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने कॉलम—9 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है :—

क्र०	अभ्यर्थी का नाम/स्थायी पता	मेधा क्रमांक	पिता/पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	कोटि	चयन कोटि	नव पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डॉ० धनंजय कुमार पिता—श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+डाकघर—ओरैना, था०—मुफसिल नवादा, जिला—नवादा, पिनकोड—805123	244	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	नवादा	08.08.1981	EWS	EWS	कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।

2. यह नियुक्ति समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के प्रत्याशा में की जा रही है। परन्तु सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति समर्पित निबंधन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं रजिस्ट्रार, बिहार पशु चिकित्सा परिषद, पटना द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने के प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

4. यह नियुक्ति समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण—पत्रों तथा अनुभव प्रमाण—पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण—पत्र/ अनुभव प्रमाण—पत्र के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाई की जायेगी।

5. यह नियुक्ति इस शर्त पर की जा रही है कि पूर्व में कहीं नियमित रूप से कार्यरत हैं, योगदान से पूर्व अनापत्ति प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

6. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. योगदान के समय अपने नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रमाण—पत्रों आदि का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/कार्यालय/ संस्थान से किये जाने के पश्चात् ही वेतन आदि का भुगतान किया जायेगा।

8. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली—2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—31.08.2005 एवं 768 दिनांक—03.07.2007 के अनुसार इनपर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. नवनियुक्त पशु चिकित्सक अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक पक्ष के अंदर अपने पदस्थापन स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। ससमय योगदान नहीं करने की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

11. इनकी वरीयता आवंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले वर्ष में न होकर योगदान वाले वर्ष में योगदान के आधार पर मेधाक्रम में होगी।

12. विभागीय पत्रांक—896, दिनांक—13.03.2024 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

13. योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने—जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार “मुकुल”,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 837-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>